



12120CH05

साझेदारी फर्म का विघटन

अधिगम उद्देश्य

इस अध्याय को पढ़ने के उपरान्त आप :

- साझेदारी फर्म के विघटन के अर्थ को समझ सकेंगे;
- साझेदारी के विघटन तथा साझेदारी फर्म के मध्य अंतर कर पाएँगे;
- साझेदारी फर्म के विघटन की विभिन्न विधियों का वर्णन कर सकेंगे;
- सभी साझेदारों के मध्य दावों के निर्धारण के नियमों का वर्णन कर सकेंगे;
- वसुली खाता तैयार कर पाएँगे;
- खातों को बंद करने के लिए तथा साझेदारों के दावों का निपटारा करने के लिए आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि तथा बही खातों को तैयार कर सकेंगे।

आपने साझेदार के प्रवेश, सेवानिवृत्ति तथा मृत्यु के पश्चात साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के संदर्भ में अध्ययन किया है। ऐसी स्थिति में वर्तमान साझेदारी का विघटन होता है, किंतु फर्म उसी नाम से अपने क्रियाकलापों को जारी रखती है। दूसरे शब्दों में यह साझेदारी का विघटन है न कि फर्म का। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार सभी साझेदारों के मध्य साझेदारी के विघटन को फर्म का विघटन कहते हैं। इससे आशय है कि अधिनियम समस्त साझेदारों के मध्य और कुछ साझेदारों के मध्य संबंध विच्छेद में भेद करता है, तथा समस्त साझेदारों के बीच संबंधों के समापन को साझेदारी फर्म का विघटन कहा जाता है। इस तरह फर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तथा विघटन के पश्चात फर्म पुस्तकों को बंद करने की गतिविधियों के अतिरिक्त कोई और कार्य नहीं किया जाता फर्म के विघटन के पश्चात समस्त परिसंपत्तियों को बेचा तथा सभी दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है।

5.1 साझेदारी का विघटन

जैसा पहले भी वर्णित किया गया है कि साझेदारी के विघटन से साझेदारों के मध्य संबंध पुनर्गठित हो जाते हैं। परंतु फर्म अपने व्यवसाय को पहले की भाँति करती है। साझेदारी का विघटन निम्न प्रकार से हो सकता है:

- (1) साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन;
- (2) नए साझेदार का प्रवेश;
- (3) साझेदार का अवकाश ग्रहण करना;
- (4) साझेदार की मृत्यु;
- (5) साझेदार का दिवालिया होना;
- (6) निर्दिष्ट कार्य का समापन, यदि साझेदारी इसी के लिए गठित की गई हो; तथा

(7) साझेदारी की अवधि का समापन यदि साझेदारी एक निर्धारित समय अवधि के लिए की गई थी।

5.2 फर्म का विघटन

साझेदारी फर्म का विघटन न्यायालय के आदेश से या न्यायालय के दखल के बिना या इस खंड में बाद में वर्णित अन्य तरीकों से हो सकता है। उल्लेखनीय है कि फर्म का विघटन होने पर साझेदारी का विघटन अवश्य हो जाएगा।

फर्म का विघटन निम्न में से किसी भी प्रकार हो सकता है:

1. समझौते द्वारा विघटन : फर्म का विघटन निम्न परिस्थितियों में हो सकता है:
 - (अ) सभी साझेदारों की सहमति द्वारा;
 - (ब) साझेदारों के मध्य अनुबंध के अनुसार।
2. अनिवार्य विघटन : फर्म का अनिवार्य विघटन निम्न परिस्थितियों में होता है:
 - (अ) जब कोई एक साझेदार या सभी साझेदार दिवालिया हो जाएँ, या किसी अनुबंध को करने में अक्षम हो जाएँ;
 - (ब) जब फर्म का व्यवसाय गैर-कानूनी हो जाए; अथवा
 - (स) जब कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि साझेदारी फर्म का व्यवसाय गैर-कानूनी हो जाए, उदाहरणार्थ जब एक साझेदार ऐसे देश का नागरिक हो जिसका भारत के साथ युद्ध घोषित हो जाए।
3. अनिश्चितता की स्थिति में : साझेदारों के बीच अनुबंध की स्थिति में फर्म का विघटन :
 - (अ) यदि एक निर्धारित अवधि के लिए गठित है तो उस अवधि के समापन पर;
 - (ब) यदि एक या अधिक उपक्रम के लिए गठित है तो उसके पूरा होने पर;
 - (स) साझेदार की मृत्यु पर; अथवा
 - (द) साझेदार के दिवालिया घोषित होने पर होता है।
4. सूचना द्वारा विघटन : स्वैच्छिक साझेदारी की स्थिति में यदि एक साझेदार अन्य साझेदारों को लिखित सूचना देकर साझेदारी फर्म के विघटन की इच्छा व्यक्त करता है।
5. न्यायालय द्वारा विघटन : एक साझेदार की याचिका पर, निम्न स्थितियों में न्यायालय फर्म के विघटन का आदेश दे सकता है:
 - (अ) जब कोई साझेदार मानसिक संतुलन खो दे;
 - (ब) जब कोई साझेदार स्थायी रूप से साझेदार के कर्तव्यों का पालन करने में अक्षम हो;
 - (स) जब कोई साझेदार कुप्रबंध का दोषी हो जिससे कि फर्म के व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका हो;
 - (द) जब कोई साझेदार जानबूझ कर बार-बार साझेदारी अनुबंध का उल्लंघन करता है;
 - (इ) जब कोई साझेदार फर्म में अपना संपूर्ण हित किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित कर दे;
 - (फ) जब फर्म को व्यवसाय चलाने से हानि के अतिरिक्त कुछ न हो; अथवा
 - (ज) जब न्यायालय फर्म के विघटन को ठीक व न्यायसंगत समझे।

साझेदारी का विघटन और साझेदारी फर्म के विघटन में अंतर

आधार	साझेदारी का विघटन	साझेदारी फर्म का विघटन
1. व्यवसाय की समाप्ति	व्यवसाय का समापन नहीं होता।	फर्म का व्यवसाय बंद हो जाता है।
2. परिसंपत्तियों एवं दायित्वों की व्यवस्था हैं।	परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।	परिसंपत्तियों का विक्रय किया जाता है तथा दायित्वों का भुगतान किया जाता है।
3. न्यायालय का हस्तक्षेप	और नया तुलन पत्र तैयार किया जाता है।	फर्म का विघटन न्यायालय के आदेश द्वारा किया जा सकता है।
4. आर्थिक संबंधों में परिवर्तन	न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता क्योंकि साझेदारी का विघटन आपसी समझौते के द्वारा होता है।	साझेदारों के आर्थिक संबंध समाप्त हो जाते हैं।
5. पुस्तकों का बंद होना	साझेदारों के मध्य आर्थिक संबंध जारी रहते हैं किंतु परिवर्तित रूप में।	बहियों को बंद कर दिया जाता है।
6. अन्य विघटन	व्यवसाय के समाप्त न होने के कारण इसकी आवश्यकता नहीं होती।	साझेदारी का विघटन आवश्यक है।
	फर्म का समापन आवश्यक नहीं	

स्वयं जाँचिए 1

निम्न कथनों में कारण सहित सत्य या असत्य का उल्लेख करें :

1. साझेदारी का विघटन, फर्म के विघटन से भिन्न है।
2. साझेदार की मृत्यु पर साझेदारी का विघटन हो जाता है।
3. सभी साझेदारों की सहमति से फर्म का विघटन हो जाता है।
4. साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर फर्म का निश्चित विघटन हो जाता है।
5. फर्म के विघटन पर साझेदारी का विघटन निश्चित होता है।
6. फर्म का अनिवार्य समापन हो जाता है जब सभी साझेदार या एक के अतिरिक्त सभी साझेदार दिवालिया हो जाएँ।
7. एक साझेदार के विक्षिप्त होने की स्थिति में न्यायालय फर्म के समापन का आदेश दे सकता है।
8. न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना साझेदारी का विघटन संभव नहीं है।

5.3 खातों का निपटारा

फर्म का विघटन होने पर, फर्म अपना व्यवसाय बंद कर देती है और खातों का निर्धारण कर दिया जाता है। इसके लिए फर्म अपनी परिसंपत्तियों का निपटारा, अपने विरुद्ध सभी दायित्वों का भुगतान कर देती है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि साझेदारों के मध्य समझौते के आधार पर साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 48 के अनुसार निम्न नियम लागू होंगे:

(अ) हानियों का व्यवहार

हानि, पूँजी में कमी सहित देय होंगे:

- (i) प्रथम लाभ में से;
- (ii) इसके पश्चात साझेदारों की पूँजी में से; तथा
- (iii) अंततः यदि आवश्यक हो तो साझेदारों द्वारा अपने लाभ-विभाजन अनुपात में व्यक्तिगत रूप में।

(ब) परिसंपत्तियों का उपयोग

फर्म की परिसंपत्तियाँ, साझेदारों द्वारा पूँजी में कमी को पूरा करने के लिए किए गए अंशदान सहित निम्न प्रकार तथा क्रम से प्रयुक्त होगा:

- (i) फर्म के ऋण का अन्य पक्षों को भुगतान;
- (ii) साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम जो कि पूँजी से भिन्न है (उदाहरणार्थ साझेदार से ऋण) को प्रत्येक साझेदार को आनुपातिक भुगतान करेगा;
- (iii) पूँजी खाते में जो साझेदारों को देय हैं, प्रत्येक साझेदार का आनुपातिक भुगतान होगा; तथा
- (iv) शेष राशि यदि कोई है, सभी साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में विभाजित होगी।

इस तरह परिसंपत्तियों से वसूल राशि, साझेदारों से अंशदान के साथ यदि आवश्यक हो तो, इसका उपयोग सर्वप्रथम फर्म के बाह्य दायित्वों के भुगतान जैसे लेनदार, ऋण, बैंक अधिविकर्ष, देय-विपन्न आदि के लिए किया जाएगा। (यह ध्यान रहे कि सुरक्षित ऋण का भुगतान असुरक्षित ऋण से पहले होगा) शेष राशि का उपयोग साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए ऋण तथा अग्रिम के भुगतान के लिए होगा (यदि शेष राशि अपर्याप्त हो तो ऋण तथा अग्रिम का भुगतान अनुपातिक रूप से होगा) तथा अतिरिक्त शेष अगर कोई हो तो उसका उपयोग लाभ तथा हानि का समायोजन करने के पश्चात पूँजी खातों के शेष का निधारण करने में होगा।

व्यक्तिगत ऋण तथा फर्म के ऋण: जब साझेदारों के व्यक्तिगत ऋण तथा फर्म के ऋण साथ-साथ होते हैं वहाँ अधिनियम की धारा 49 के निम्न नियम लागू होंगे:

- (अ) फर्म की परिसंपत्तियों का प्रयोग सर्वप्रथम फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए किया जाएगा तथा अधिक्य राशि, यदि कोई हो तो, साझेदारों में उनके दावों के अनुसार विभाजित होगी जिसका उपयोग अनेक निजी दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाएगा।
- (ब) साझेदार की निजी परिसंपत्तियों का उपयोग सर्वप्रथम उसके निजी ऋणों के भुगतान के लिए किया जाएगा तथा शेष राशि यदि कोई है तो उसका उपयोग फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए उस स्थिति में होगा यदि फर्म के दायित्व फर्म की परिसंपत्तियों से अधिक है।

यह ध्यान रहे कि साझेदारों की निजी परिसंपत्तियों में उसकी पत्नी और बच्चों की निजी परिसंपत्तियों को शामिल नहीं किया जाएगा। अतः यदि फर्म की परिसंपत्तियाँ फर्म के दायित्वों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं तो साझेदारों को अपनी निवल निजी परिसंपत्तियों (निजी परिसंपत्तियों में से निजी दायित्वों को घटाकर) में अभिदान किया जाएगा।

किसी साझेदार की उसके पूँजी खाते में कमी होने पर योगदान में असमर्थता

साझेदारों के मध्य लेखों के निर्धारण के संबंध में यह एक ध्यान देने योग्य तथ्य है - जब एक साझेदार उसके पूँजी खातों में कमी के प्रति योगदान देने में असमर्थ होता है (खाता नाम शेष दर्शाता है) तो ऐसी स्थिति में वह दिवालिया कहलाता है और वह राशि जो उससे प्राप्त नहीं हुई है एक फर्म के लिए पूँजीगत हानि मानी जाती है। किसी समझौते के अभाव में, इस पूँजीगत हानि को शेष साझेदारों द्वारा जो कि गारनर बनाम मरे के सिद्धांत की तरह सहन किया जाएगा, जो कि यह दर्शाता है कि फर्म के विघटन की तिथि पर यह पूँजीगत हानि शोध्य साझेदारों द्वारा उनके पूँजी के अनुपातिक सहन करनी होगी। हालाँकि दिवालिया साझेदार के संबंध में साझेदारी फर्म के विघटन पर लेखा व्यवहार, इस स्थिति में नहीं लिया जाएगा।

5.4 लेखांकन व्यवहार

जब फर्म का विघटन होता है तो फर्म की पुस्तकें बंद कर दी जाती हैं और परिसंपत्तियों की वसूली तथा दायित्वों के भुगतान के पश्चात होने वाली हानि या लाभ की गणना की जाती है, जिसके लिए वसूली खाता तैयार किया जाता है। इस खाते के माध्यम द्वारा परिसंपत्तियों से वसूली तथा दायित्वों के भुगतान के पश्चात निवल प्रभाव (लाभ या हानि) का निर्धारण करके साझेदारों के पूँजी खाते में उनके लाभ विभाजन अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है इस कारणवश, सभी परिसंपत्तियों (हस्तस्थ रोकड़, बैंक शेष तथा काल्पनिक परिसंपत्तियों के अतिरिक्त यदि कोई हो) तथा सभी बाह्य दायित्वों को इस खाते में हस्तांतरित किया जाता है। यह खाता परिसंपत्तियों की बिक्री, दायित्वों का भुगतान तथा वसूली व्ययों का अभिलेखन करता है। इस खाते के शेष को वसूली पर लाभ या हानि कहा जाता है जो कि साझेदारों के पूँजी खाते में इनकी लाभ विभाजन अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है (देखें चित्र 5.1)।

वसूली खाता

नाम	राशि	जमा	
विवरण	(रु.)	विवरण	राशि (रु.)
भूमि व भवन	xxx	विविध लेनदार	xxx
संयंत्र व यंत्र	xxx	देय विपत्र	xxx
फर्नीचर व फिटिंग्स	xxx	बैंक अधिविकर्ष	xxx
प्राप्य विपत्र	xxx	बकाया व्यय	xxx
विविध देनदार	xxx	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	xxx
रोकड़/बैंक (दायित्वों का भुगतान)	xxx	रोकड़/बैंक (परिसंपत्तियों का विक्रय)	xxx
रोकड़/बैंक	xxx	साझेदारों के पूँजी खाते	xxx
(गैर-अभिलिखित दायित्वों का भुगतान)		(साझेदार द्वारा ली गई परिसंपत्ति)	
साझेदारों के पूँजी खाते (साझेदार द्वारा दायित्व का भुगतान)	xxx	हानि (साझेदारों के पूँजी खाते में हस्तांतरण)	xxx
लाभ (साझेदारों के पूँजी खातों में लाभ विभाजन अनुपात में हस्तांतरण)	xxx		
योग	xxxx	योग	xxxx

चित्र 5.1: वसूली खाते का प्रारूप

उदाहरण 1

सुप्रिया और मोनिका साझेदार हैं, उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। 31 मार्च, 2017 को उनका तुलन पत्र इस प्रकार है:

31 मार्च, 2017 को सुप्रिया और मोनिका का तुलन पत्र

दायित्व	राशि (रु.)	परिसंपत्तियाँ	राशि (रु.)
सुप्रिया की पूँजी	32,500	रोकड़ और बैंक	40,500
मोनिका की पूँजी	11,500	स्टॉक	7,500
विविध लेनदार	48,000	विविध देनदार	21,500
संचय निधि	13,500	घटाया : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	500
		स्थायी परिसंपत्तियाँ	36,500
	1,05,500		1,05,500

31 मार्च, 2017 को फर्म का विघटन हुआ। निम्न सूचनाओं से फर्म की पुस्तकों को बंद करें:

- देनदारों से 5 प्रतिशत छूट पर वसूली हुई।
 - स्टॉक से वसूली 7,000 रु. पर की गई।
 - स्थायी परिसंपत्तियों से वसूली 42,000 रु. प्राप्त हुए।
 - वसूली व्यय 1,500 रु.।
 - लेनदारों को पूर्ण भुगतान किया गया।
- आवश्यक बही खाते तैयार करें।

हल**सुप्रिया और मोनिका की पुस्तकें
वसूली खाता**

नाम		जमा	
विवरण	राशि (रु.)	विवरण	राशि (रु.)
परिसंपत्तियों का हस्तांतरण:		संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	500
स्टॉक	7,500	विविध लेनदार	48,000
विविध देनदार	21,500	बैंक	
स्थायी परिसंपत्तियाँ	36,500	देनदार	20,425
बैंक:		स्टॉक	7,000
लेनदार	48,000	स्थायी परिसंपत्तियाँ	<u>42,000</u>
वसूली व्यय	1,500		69,425
लाभ का हस्तांतरण :			
सुप्रिया की पूँजी	1,755		
मोनिका की पूँजी	<u>1,170</u>		
	2,925		
	1,17,925		1,17,925

साझेदारों के पूँजी खाते

नाम					जमा				
तिथि	विवरण	रो. पृ.सं.	सुप्रिया (रु.)	मोनिका (रु.)	तिथि	विवरण	रो. पृ. सं.	सुप्रिया (रु.)	मोनिका (रु.)
	बैंक		42,355	18,070		शेष आ/ला संचय निधि वसूली (लाभ)		32,500 8,100 1,755	11,500 5,400 1,170
			42,355	18,070				42,355	18,070

रोकड़ और बैंक खाता

नाम					जमा		
तिथि	विवरण	रो. पृ. सं.	राशि (रु.)	तिथि	विवरण	रो. पृ. सं.	राशि (रु.)
	शेष आ/ला वसूली		40,500 69,425		वसूली वसूली सुप्रिया की पूँजी मोनिका की पूँजी		48,000 1,500 42,355 18,070
			1,09,925				1,09,925

5.4.1 रोज़नामचा प्रविष्टियाँ

1. परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर

रोकड़, बैंक और अवास्तविक परिसंपत्तियों के अतिरिक्त सभी परिसंपत्तियों के खाते पुस्तक मूल्य पर वसूली खाते के नाम पक्ष में हस्तांतरित किए जाते हैं। ध्यान देने योग्य है कि विविध देनदारों को सकल मूल्य पर हस्तांतरित किया जाता है और डूबत व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान को दायित्वों के साथ वसूली खाते के जमा पक्ष में हस्तांतरित किया जाता है। यही प्रक्रिया स्थायी परिसंपत्तियों पर लागू होगी यदि हयस के लिए प्रावधान खाता बनाया गया हो।

वसूली खाता

नाम

परिसंपत्तियाँ (व्यक्तिगत तौर पर) खाते से

2. दायित्वों के हस्तांतरण पर

प्रावधान सहित सभी बाह्य दायित्वों, जिन्हें वसूली खाते के जमा पक्ष में हस्तांतरित करके बंद किया जाता है।

दायित्व (व्यक्तिगत आधार पर)

नाम

वसूली खाते से

3. परिसंपत्तियों की बिक्री पर

बैंक खाता

नाम

वसूली खाते से

4. साझेदार द्वारा ली गई परिसंपत्तियों के लिए
 साझेदार का पूँजी खाता नाम
 वसूली खाते से
5. दायित्वों के भुगतान करने पर
 वसूली खाता नाम
 बैंक खाते से
6. साझेदार द्वारा दायित्वों का भुगतान करने का उत्तरदायित्व लेने पर
 वसूली खाता नाम
 साझेदार के पूँजी खाते से
7. परिसंपत्तियों के हस्तांतरण द्वारा लेनदारों का भुगतान जब लेनदार पूर्ण रूप से अपने खाते का भुगतान प्राप्त करने के लिए परिसंपत्ति को स्वीकार करता है तो कोई रोज़नामचा प्रविष्टि नहीं की जाती है, परंतु यदि लेनदार आंशिक रूप में परिसंपत्ति को स्वीकार करता है तब केवल रोकड़ भुगतान की प्रविष्टि की जाएगी। उदाहरणार्थ एक लेनदार जिसे 10,000 रुपये देय है, 8,000 रुपये के कार्यालय उपकरण तथा 2,000 रुपये रोकड़ का भुगतान स्वीकार कर लेता है तो केवल रोकड़ भुगतान के लिए निम्न प्रविष्टि की जाएगी।
 वसूली खाता नाम
 बैंक खाते से
 हालाँकि जब लेनदार ने परिसंपत्ति स्वीकार कर ली है, जिसका मूल्य देय राशि से अधिक है तो वह अंतर की राशि का फर्म को भुगतान करेगा। इसकी प्रविष्टि इस प्रकार होगी:
 बैंक खाता नाम
 वसूली खाते से
8. वसूली व्यय के भुगतान पर
 (अ) जब परिसंपत्तियों की वसूली और दायित्वों के भुगतान की प्रक्रिया में कुछ व्ययों का भुगतान फर्म द्वारा किया जाता है:
 वसूली खाता नाम
 बैंक खाते से
 (ब) जब फर्म की ओर से वसूली व्ययों का भुगतान एक साझेदार के द्वारा किया गया है:
 वसूली खाता नाम
 साझेदार के पूँजी खाते से
 (स) जब एक साझेदार किसी स्वीकृत पारितोषिक पर विघटन कार्य से संबंधित व्ययों को वहन करने के लिए सहमत होता है:
 (i) जब फर्म द्वारा वसूली व्यय दिया जाता है
 साझेदार का पूँजी खाता नाम
 बैंक खाते से
 (ii) यदि साझेदार वसूली व्यय का स्वयं भुगतान करता है तब कोई प्रविष्टि आवश्यक नहीं है।

- (iii) साझेदार को पारितोषिक देने पर
 वसूली खाता नाम
 साझेदार के पूँजी खाते से
9. किसी भी ख्याति सहित गैर अभिलेखित परिसंपत्तियों की वसूली पर
 बैंक खाता नाम
 वसूली खाते से
10. गैर-अभिलेखित दायित्वों के भुगतान पर
 वसूली खाता नाम
 बैंक खाते से
11. वसूली पर लाभ हानि का हस्तांतरण करने पर:
 (अ) वसूली पर लाभ होने पर
 वसूली खाता नाम
 साझेदार के पूँजी खाते से (व्यक्तिगत आधार पर)
 (ब) वसूली पर हानि होने पर
 साझेदार का पूँजी खाता (व्यक्तिगत आधार पर) नाम
 वसूली खाते से
12. संचित लाभों का हस्तांतरण करने पर जो कि संचय कोष या सामान्य संचय के रूप में है:
 संचय निधि/सामान्य संचय खाता नाम
 साझेदार के पूँजी खाते से (व्यक्तिगत आधार पर)
13. आभासी परिसंपत्तियों को साझेदारों के पूँजी खाते में उनके लाभ विभाजन अनुपात में हस्तांतरित करने पर:
 साझेदार का पूँजी खाता (व्यक्तिगत आधार पर) नाम
 आभासी परिसंपत्ति खाते से
14. साझेदारों से लिए गए ऋणों के भुगतान पर:
 साझेदार का ऋण खाता नाम
 बैंक खाते से
15. साझेदारों के खातों के भुगतान पर:
 यदि साझेदार का पूँजी खाता नाम शेष दर्शाता है तथा वह आवश्यक रोकड़ लाता है तो ऐसी स्थिति में प्रविष्टि इस प्रकार होगी:
 बैंक खाता नाम
 साझेदार के पूँजी खाते से
 जब साझेदार का खाता जमा शेष दर्शाए और राशि का भुगतान कर दिया जाए तब निम्न प्रविष्टि अभिलेखित की जाएगी
 साझेदार का पूँजी खाता (व्यक्तिगत आधार पर) नाम
 बैंक खाते से

यह ध्यान रहे कि वह कुल राशि जो साझेदारों को अंततः देय है बैंक में उपलब्ध रकम और रोकड़ खाते के बराबर होनी चाहिए। अतः विघटन क्रिया पूर्ण होने पर फर्म के सभी खाते स्वतः बंद हो जाते हैं।

स्वयं जाँचिए 2

सही उत्तर को चिह्नित (७) कीजिए

1. फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित करेंगे:
 - (अ) रोकड़ खाते में
 - (ब) बैंक खाते में
 - (स) वसूली खाते में
 - (द) साझेदार के पूँजी खातों में
2. फर्म के विघटन पर, साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित करेंगे:
 - (अ) वसूली खाते में
 - (ब) साझेदार के पूँजी खाते में
 - (स) साझेदार के चालू खाते में
 - (द) इनमें से कोई नहीं
3. लेनदार और देय विपत्र जैसे दायित्वों को वसूली खाते में हस्तांतरित करने के पश्चात, भुगतान के संबंध में सूचना के अभाव में, ऐसे दायित्वों का :
 - (अ) भुगतान नहीं होगा
 - (ब) पूर्ण भुगतान होगा
 - (स) आंशिक भुगतान होगा
 - (द) इनमें से कोई नहीं
4. जब साझेदार की तरफ से फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है। यह व्यय नाम होंगे:
 - (अ) वसूली खाते में
 - (ब) साझेदार के पूँजी खाते में
 - (स) साझेदार के ऋण खाते में
 - (द) इनमें से कोई नहीं
5. जब गैर-अभिलेखित परिसंपत्ति साझेदार द्वारा ली जाती है तो उसे दर्शाएँगे:
 - (अ) वसूली खाते के नाम पक्ष में
 - (ब) बैंक खाते के नाम पक्ष में
 - (स) वसूली खाते के जमा पक्ष में
 - (द) बैंक खाते के जमा पक्ष में
6. जब गैर-अभिलेखित दायित्वों का भुगतान किया जाता है तो दर्शाएँगे:
 - (अ) वसूली खाते के नाम पक्ष में
 - (ब) बैंक खाते के नाम पक्ष में
 - (स) वसूली खाते के जमा पक्ष में
 - (द) बैंक खाते के जमा पक्ष में

7. संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाएगा:
- (अ) वसूली खाते में
 - (ब) साझेदारों के पूँजी खाते में
 - (स) बैंक खाते में
 - (द) इनमें से कोई नहीं
8. फर्म के विघटन पर, साझेदारों के पूँजी खाते बंद किए जाते हैं:
- (अ) वसूली खाते में
 - (ब) आहरण खाते में
 - (स) बैंक खाते में
 - (द) ऋण खाते में

उदाहरण 2

सीता, रीटा और मीता साझेदार हैं। उनका लाभ व हानि विभाजन अनुपात 2:2:1 है। 31 मार्च, 2017 को तुलन पत्र इस प्रकार है :

31 मार्च, 2017 को तुलन पत्र

दायित्व	राशि (रु.)	परिसंपत्तियाँ	राशि (रु.)
संचय निधि	2,500	बैंक में रोकड़	2,500
लेनदार	2,000	स्टॉक	2,500
पूँजी:		फ़र्नीचर	1,000
सीता	5,000	देनदार	2,000
रीटा	2,000	संयंत्र व मशीनरी	4,500
मीता	1,000		
	8,000		
	12,500		12,500

वे फर्म के विघटन का फैसला करते हैं। निम्न राशि वसूल हुई : संयंत्र व यंत्र 4,250 रुपये, स्टॉक 3,500 रुपये, देनदार 1,850 रुपये तथा फ़र्नीचर 750 रुपये।

सीता सभी वसूली व्यय करने के लिए सहमत हुई। इस कार्य के लिए सीता को 60 रुपये का भुगतान किया गया।

वसूली व्यय की वास्तविक राशि 450 रुपये है। लेनदारों को 2 प्रतिशत कम भुगतान हुआ। 250 रुपये की परिसंपत्ति का लेखा पुस्तकों में नहीं है, जो कि रीटा द्वारा 200 रुपये में ली गई।

फर्म की पुस्तकों को बंद करते हुए आवश्यक खाते तैयार करें।

हल

**सीता, रीटा व मीता की पुस्तकें
वसूली खाता**

नाम		जमा	
विवरण	राशि (रु.)	विवरण	राशि (रु.)
स्टॉक	2,500	लेनदार	2,000
फर्नीचर	1,000	रीटा की पूँजी	200
देनदार	2,000	(अलिखित परिसंपत्ति)	
संयंत्र व यंत्र	4,500	बैंक (परिसंपत्तियों से वसूली)	
बैंक (लेनदार)	1,960	संयंत्र व यंत्र	4,250
सीता की पूँजी(वसूली व्यय)	60	देनदार	1,850
लाभ का हस्तांतरण:		स्टॉक	3,500
सीता की पूँजी	212	फर्नीचर	750
रीटा की पूँजी	212		10,350
मीता की पूँजी	106		
	530		
	12,550		12,550

साझेदारों के पूँजी खाते

नाम						जमा					
तिथि	विवरण	रो.पृ. सं.	सीता (रु.)	रीटा (रु.)	मीता (रु.)	तिथि	विवरण	रो.पृ. सं.	सीता (रु.)	रीटा (रु.)	मीता (रु.)
2017						2017					
	बैंक		450	-	-		शेष आ/ला		5,000	2,000	1,000
	वसूली		-	200	-		संचय निधि		1,000	1,000	500
	(परिसंपत्तियाँ)						वसूली(लाभ)		212	212	106
	बैंक		5,822	3,012	1,606		वसूली (व्यय)		60	-	-
			6,272	3,212	1,606				6,272	3,212	1,606

बैंक खाता

नाम				जमा			
तिथि	विवरण	रो.पृ. सं.	राशि (रु.)	तिथि	विवरण	रो.पृ. सं.	राशि (रु.)
2017				2017			
	शेष आ/ला		2,500		वसूली (लेनदार)		1,960
	वसूली(परिसंपत्तियों से वसूली)		10,350		सीता की पूँजी(व्यय)		450
					सीता की पूँजी		5,822
					रीता की पूँजी		3,012
					मीता की पूँजी		1,606
			12,850				12,850

उदाहरण 3

नयना और आरूशी बराबर के साझेदार हैं। 31 मार्च, 2017 को उनका तुलन पत्र नीचे दिया गया है:

31 मार्च, 2017 को नयना और आरूशी का तुलन पत्र

दायित्व	राशि (₹.)	परिसंपत्तियाँ	राशि (₹.)
पूँजी:		बैंक	30,000
नयना 1,00,000		देनदार	25,000
आरूशी 50,000	1,50,000	स्टॉक	35,000
लेनदार	20,000	फ़र्नीचर	40,000
आरूशी का चालू खाता	10,000	यंत्र (मशीनरी)	60,000
कर्मचारी क्षतिपूर्ति निधि	15,000	नयना का चालू खाता	10,000
बैंक अधिविक्रय	5,000		
	2,00,000		2,00,000

इस तिथि को फर्म का विघटन हुआ:

1. नयना ने 50% स्टॉक को पुस्तक मूल्य से 10% कम पर लिया और शेष स्टॉक को 15% लाभ पर बेच दिया गया। फ़र्नीचर और मशीनरी से क्रमशः 30,000 रुपये व 50,000 रुपये वसूल हुए।
2. गैर-अभिलेखित विनियोग को 25,000 रुपये में बेचा गया।
3. देनदारों से 31,500 रुपये (ब्याज सहित) वसूली हुई और 1,200 रुपये पिछले वर्ष अपलिखित डूबत ऋण से प्राप्त हुए।
4. मरम्मत के बकाया बिल का 2,000 रुपये भुगतान किया गया।

फर्म की पुस्तकों को बंद करने के लिए आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियों का अभिलेखन करें तथा बही खाते तैयार करें।

हल

**नयना और आरूशी की पुस्तकें
रोज़नामचा**

तिथि 2017	विवरण	रो.पृ. सं.	नाम राशि (₹.)	जमा राशि (₹.)
	वसूली खाता नाम		1,60,000	
	देनदार खाते से			25,000
	स्टॉक खाते से			35,000
	फ़र्नीचर खाते से			40,000
	मशीनरी खाते से			60,000
	(वसूली खाते में परिसंपत्तियों का हस्तांतरण)			

लेनदार खाता	नाम	20,000	
बैंक अधिविकर्ष खाता	नाम	5,000	
वसूली खाते से (वसूली खाते में दायित्वों का हस्तांतरण)			25,000
वसूली खाता	नाम	27,000	
बैंक खाते से (लेनदार, बैंक अधिविकर्ष, बकाया मरम्मत बिल का भुगतान)			27,000
बैंक खाता	नाम	1,57,825	
वसूली खाते से (परिसंपत्तियों को बेचा तथा डूबत ऋण वसूली)			1,57,825
नयना का पूँजी खाता	नाम	15,750	
वसूली खाते से (नयना द्वारा आधे स्टॉक का 10% कम पर अधिग्रहण)			15,750
वसूली खाता	नाम	11,575	
नयना के चालू खाते से आरूशी के चालू खाते से (वसूली से लाभ का साझेदारों के पूँजी खाते में हस्तांतरण)			5,788 5,787
कर्मचारी क्षतिपूर्ति निधि खाता	नाम	15,000	
नयना के चालू खाते से आरूशी के चालू खाते से (क्षतिपूर्ति निधि का साझेदारों के चालू खाते में हस्तांतरण)			7,500 7,500
आरूशी का चालू खाता	नाम	23,287	
आरूशी का पूँजी खाते से (चालू खाते के शेष का पूँजी खाते में हस्तांतरण)			23,287
नयना का पूँजी खाता	नाम	12,462	
नयना के चालू खाते से (चालू खाते के शेष का पूँजी खाते में हस्तांतरण)			12,462
नयना का पूँजी खाता	नाम	87,538	
आरूशी का पूँजी खाता	नाम	73,287	
बैंक खाते से (अंतिम देय राशि का साझेदारों को भुगतान)			1,60,825

वसूली खाता

नाम			जमा	
विवरण		राशि विवरण		
राशि	(रु.)		(रु.)	
20,000		लेनदार		
देनदार 25,000		बैंक अधिविकर्ष	5,000	
स्टॉक 35,000		बैंक :		
फर्नीचर 40,000		विनियोग 25,000		
मशीन 60,000	1,60,000	फर्नीचर 30,000		
बैंक:		मशीनरी 50,000		
लेनदार 20,000		देनदार (90%) 31,500		
बैंक अधिविकर्ष 5,000		स्टॉक : 20,125		
बकाया बिल 2,000	27,000	डूबत ऋण से प्राप्त 1,200	1,57,825	
लाभ का हस्तांतरण		नयना की पूँजी		
नयना की पूँजी 5,788		(स्टॉक का अधिग्रहण)	15,750	
आरुशी की पूँजी 5,787	11,575			
	1,98,575		198,575	

साझेदारों के चालू खाते

नाम					जमा				
तिथि	विवरण	रो.पृ. सं.	नयना (रु.)	आरुशी (रु.)	तिथि	विवरण	रो.पृ. सं.	नयना (रु.)	आरुशी (रु.)
2017					2017				
	शेष अ/ला		10,000	-		शेष आ/ला		-	10,000
	वसूली		15,750			कर्मचारी क्षतिपूर्ति निधि		7,500	7,500
	आरुशी की पूँजी			23,287		वसूली (लाभ)		5,788	5,787
						नयना की पूँजी		12,462	
			25,750	23,287				25,750	23,287

साझेदारों के पूँजी खाते

नाम					जमा				
तिथि	विवरण	रो.पृ. सं.	नयना (रु.)	आरुशी (रु.)	तिथि	विवरण	रो.पृ. सं.	नयना (रु.)	आरुशी (रु.)
2017					2017				
	नयना का चालू खाता		12,462			शेष आ/ला		1,00,000	50,000
	बैंक		87,538	73,287		आरुशी का चालू खाता			23,287
			1,00,000	73,287				1,00,000	73,287

बैंक खाता

नाम				जमा			
तिथि	विवरण	रो.पृ. सं.	राशि (रु.)	तिथि	विवरण	रो.पृ. सं.	राशि (रु.)
	शेष आ/ला वसूली		30,000 1,57,825		वसूली नयना की पूँजी आरूशी की पूँजी		27,000 87,538 73,287
			1,87,825				1,87,825

स्वयं जाँचिए 3

सही शब्द भरिए :

- सभी परिसंपत्तियाँ (हस्तस्थ/बैंकस्थ और आभासी परिसंपत्तियों के अतिरिक्त) खाते (वसूली खाते/पूँजी) के (नाम/जमा) पक्ष की ओर हस्तांतरित की जाती हैं।
- सभी (अंतः/बाह्य) दायित्व (बैंक/वसूली खाते) के (नाम/जमा) पक्ष की ओर हस्तांतरित किए जाते हैं।
- संचित हानियों को (चालू/पूँजी खाते) में (समान अनुपात/लाभ विभाजन अनुपात) में हस्तांतरित किया जाता है।
- यदि एक दायित्व किसी साझेदार के द्वारा लिया गया है, उस साझेदार के पूँजी खाते को (नाम/जमा) किया जाएगा।
- यदि एक साझेदार किसी परिसंपत्ति को लेता है तो उस साझेदार के पूँजी खाते को (नाम/जमा) किया जाएगा।
- जब एक (साझेदार/लेनदार) उसके भुगतान के रूप में किसी स्थायी परिसंपत्ति को स्वीकार करता है तो इस स्थिति में किसी प्रविष्टि की आवश्यकता नहीं होती।
- जब एक लेनदार किसी परिसंपत्ति को स्वीकार करता है जिसका मूल्य उसको देय भुगतान से अधिक है, वह आधिक्य राशि का (भुगतान करेगा/भुगतान नहीं करेगा), जिसे (रोकड़/लेनदार) खाते के नाम पक्ष में दर्शाया जाएगा।
- जब एक फर्म किसी साझेदार को वसूली के संबंध में वास्तविक राशि के स्थान पर एक निश्चित राशि का भुगतान करना स्वीकार करती है तो यह निश्चित राशि को (वसूली/पूँजी) खाते में नाम किया जाएगा तथा (पूँजी/बैंक) खाते में जमा किया जाएगा।
- किसी साझेदार के ऋण को वसूली खाते में (अभिलेखित/गैर-अभिलेखित) किया जाएगा।
- साझेदार के चालू खाते को साझेदार के (ऋण/पूँजी) खाते में हस्तांतरित किया जाएगा।

उदाहरण 4

31 मार्च, 2017 को अश्वनी और भारत का तुलन पत्र नीचे दिया गया है।

31 मार्च, 2017 को अश्वनी और भारत का तुलन पत्र

दायित्व	राशि (रु.)	परिसंपत्तियाँ	राशि (रु.)
लेनदार	76,000	बैंक में रोकड़	17,000
श्रीमती अश्वनी का ऋण	10,000	स्टॉक	10,000
श्रीमती भारत का ऋण	20,000	विनियोग	20,000
विनियोग घट-बढ़ कोष	2,000	देनदार	40,000
संचय निधि	20,000	घटाया : संदिग्ध ऋण के लिए	
पूँजी:		प्रावधान (4,000)	36,000
अश्वनी 20,000		भवन	70,000
भारत 20,000	40,000	ख्याति	15,000
	1,68,000		1,68,000

इस तिथि को फर्म का विघटन हुआ तथा निम्न व्यवहारों के लिए सहमती हुई:

- अश्वनी ने अपनी पत्नी का ऋण चुकाने का पैसला लिया और स्टॉक का 8,000 रुपये में अधिग्रहण किया।
- भारत ने आधे विनियोग को 10% कम पर लिया। देनदारों से 38,000 रुपये की वसूली हुई। लेनदारों को 380 रुपये कम भुगतान किया गया। भवन से 1,30,000 रुपये, ख्याति से 12,000 रुपये वसूल हुए और शेष विनियोग को 9,000 रुपये में बेचा गया। एक पुराना टाइपराइटर जिसका पुस्तकों में अभिलेखन नहीं था भारत द्वारा 600 रुपये में लिया गया। वसूली व्यय 2,000 रुपये हुआ। वसूली खाता, साझेदारों के पूँजी खाते व बैंक खाता तैयार कीजिए।

हल

**अश्वनी व भारत की पुस्तकें
वसूली खाता**

नाम		जमा	
विवरण	राशि (रु.)	विवरण	राशि (रु.)
विनियोग 20,000	1,55,000	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	4,000
देनदार 40,000		लेनदार	76,000
भवन 70,000		श्रीमति अश्वनी का ऋण	10,000
स्टॉक 10,000		श्रीमति भारत का ऋण	20,000
ख्याति 15,000		विनियोग घट-बढ़ कोष	2,000
अश्वनी की पूँजी	10,000	अश्वनी की पूँजी(स्टॉक)	8,000
(श्रीमती अश्वनी का ऋण)		भारत की पूँजी (टाइपराइटर)	600
बैंक (श्रीमती भारत का ऋण)	20,000	भारत की पूँजी(विनियोग)	9,000
बैंक (लेनदार)	75,620	बैंक	
बैंक (वसूली व्यय)	2,000	विनियोग 9,000	
लाभ का हस्तांतरण :		देनदार 38,000	
अश्वनी की पूँजी	27,990	भवन 1,30,000	
भारत की पूँजी 27,990	55,980	ख्याति 12,000	1,89,000
	3,18,600		3,18,600

साझेदारों के पूँजी खाते

नाम					जमा				
तिथि 2017	विवरण	रो. पृ.सं.	अश्वनी (रु.)	भारत (रु.)	तिथि 2017	विवरण	रो. पृ.सं.	अश्वनी (रु.)	भारत (रु.)
	वसूली(स्टॉक)		8,000	-		शेष आ/ला		20,000	20,000
	वसूली(टाइपराइटर का विक्रय)			600		संचय कोष		10,000	10,000
	वसूली (विनियोग)			9,000		वसूली(श्रीमती अश्वनी का ऋण)		10,000	
	बैंक		59,990	48,390		वसूली (लाभ)		27,990	27,990
			67,990	57,990				67,990	57,990

बैंक खाता

नाम				जमा			
तिथि 2017	विवरण	रो.पृ. सं.	राशि (रु.)	तिथि 2017	विवरण	रो.पृ. सं.	राशि (रु.)
	शेष आ/ला वसूली		17,000 1,89,000		वसूली (लेनदार) वसूली (व्यय) वसूली (श्रीमती भारत का ऋण) अश्वनी की पूँजी भारत की पूँजी		75,620 2,000 20,000 59,990 48,390
			2,06,000				2,06,000

स्वयं कीजिए

साझेदारी फर्म के विघटन पर निम्न की रोज़नामचा प्रविष्टि दीजिए।

1. परिसंपत्ति खातों को बंद करने पर।
2. दायित्व खातों को बंद करने पर।
3. परिसंपत्तियों के विक्रय पर।
4. लेनदारों के खातों का भुगतान परिसंपत्तियों के हस्तांतरण द्वारा।
5. वसूली व्यय के लिए यदि वास्तविक व्यय का भुगतान साझेदार द्वारा फर्म की तरफ से किया जाता है।
6. यदि साझेदार फर्म के दायित्वों का भुगतान करता है।
7. साझेदार के ऋण के भुगतान पर।
8. पूँजी खातों के भुगतान पर।

उदाहरण 5

सोनिया, रोहित और उदित साझेदार हैं। उनका लाभ अनुपात 5 : 3 : 2 है। 31 मार्च, 2017 को उनका तुलन पत्र इस प्रकार है:

31 मार्च, 2017 को सोनिया, रोहित और उदित का तुलन पत्र

दायित्व	राशि(रु.)	परिसंपत्तियाँ	राशि(रु.)
लेनदार	30,000	भवन	2,00,000
देय विपन्न	30,000	मशीनरी	40,000
बैंक ऋण	1,20,000	स्टॉक	1,60,000
सोनिया के पति से ऋण	1,30,000	प्राप्य विपन्न	1,20,000
सामान्य संचय	80,000	फ़र्नीचर	80,000
पूँजी :		बैंक से रोकड़	60,000
सोनिया	70,000		
रोहित	90,000		
उदित	<u>1,10,000</u>		
	2,70,000		
	6,60,000		6,60,000

उक्त तिथि को फर्म का विघटन हुआ। निम्न सूचनाओं से फर्म की पुस्तकों को बंद करें:

1. भवन से वसूली 1,90,000 रुपये, प्राप्य विपत्र से वसूली 1,10,000 रुपये, स्टॉक से वसूली 1,50,000 रुपये और मशीनरी का 48,000 रुपये में तथा फर्नीचर का 75,000 रुपये में विक्रय हुआ।
2. बैंक ऋण का निपटारा 1,30,000 रुपये में हुआ। लेनदार व देय विपत्र का निपटारा 10% बट्टे पर हुआ।
3. रोहित ने 10,000 रुपये वसूली व्यय का भुगतान किया व विघटन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उसे 12,000 रुपये पारितोषिक दिया गया।

आवश्यक बही खाते तैयार करें।

हल

सोनिया, रोहित और उदित की पुस्तकें
वसूली खाता

नाम			जमा
विवरण	राशि (रु.)	विवरण	राशि (रु.)
भवन 2,00,000		लेनदार	30,000
मशीनरी 40,000		देय विपत्र	30,000
स्टॉक 1,60,000		बैंक ऋण	1,20,000
प्राप्य विपत्र 1,20,000		सोनिया के पति से ऋण	1,30,000
फर्नीचर 80,000	6,00,000	बैंक:	
बैंक (बैंक ऋण)	1,30,000	भवन 1,90,000	
बैंक (लेनदार व देय विपत्र)	54,000	प्राप्य विपत्र 1,10,000	
बैंक (सोनिया के पति का ऋण)	1,30,000	स्टॉक 1,50,000	
रोहित की पूँजी	12,000	मशीनरी 48,000	
(वसूली व्यय)		फर्नीचर 75,000	5,73,000
		हानि का पूँजी खाते में हस्तांतरण	
		सोनिया 21,500	
		रोहित 12,900	
		उदित 8,600	43,000
	9,26,000		9,26,000

साझेदारों के पूँजी खाते

नाम						जमा					
तिथि	विवरण	रो.पृ. सं.	सोनिया (रु.)	रोहित (रु.)	उदित (रु.)	तिथि	विवरण	रो.पृ. सं.	सोनिया (रु.)	रोहित (रु.)	उदित (रु.)
2017						2017					
	वसूली(हानि)		21,500	12,900	8,600		शेष आ/ला		70,000	90,000	1,10,000
	बैंक		88,500	1,13,100	1,17,400		वसूली(व्यय)		-	12,000	-
							सामान्य संचय		40,000	24,000	16,000
			1,10,000	1,26,000	1,26,000				1,10,000	1,26,000	1,26,000

बैंक खाता

नाम	विवरण	रो.पृ. सं.	राशि (रु.)	तिथि	विवरण	रो.पृ. सं.	जमा राशि (रु.)
2017				2017			
	शेष आ/ला		60,000		वसूली(बैंक ऋण)		1,30,000
	वसूली		5,73,000		वसूली		54,000
	(परिसंपत्तियों से वसूली)				(लेनदार व देय विपत्र)		
					वसूली		1,30,000
					(सोनिया के पति का ऋण)		
					सोनिया की पूँजी		88,500
					रोहित की पूँजी		1,13,100
					उदित की पूँजी		1,17,400
			6,33,000				6,33,000

टिप्पणी: रोहित द्वारा वास्तविक वसूली व्यय की फर्म की पुस्तकों में कोई भी प्रविष्टि नहीं की जाएगी क्योंकि उसको इसके लिए 12,000 रुपये का पारितोषिक उसके खातों में दिया गया है।

उदाहरण 6

रोमेश और भवन साझेदार हैं, उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। 31 मार्च, 2017 को उनका तुलन पत्र इस प्रकार है:

31 मार्च, 2017 को रोमेश और भवन का तुलन पत्र

दायित्व	राशि (रु.)	परिसंपत्तियाँ	राशि (रु.)
बैंक से ऋण	60,000	हस्तस्थ रोकड़	30,000
लेनदार	80,000	देनदार	70,000
देय विपत्र	40,000	स्टॉक	2,00,000
भवन से ऋण	20,000	विनियोग	1,40,000
पूँजी:		भवन	60,000
रोमेश	1,00,000		
भवन	2,00,000		
	3,00,000		
	5,00,000		5,00,000

उन्होंने फर्म के विघटन का निर्णय लिया। निम्न सूचनाएँ उपलब्ध हैं :

1. देनदारों से वसूली 5% छूट पर की गई। स्टॉक का पुस्तक मूल्य वसूल हुआ और भवन को 51,000 रुपये पर बेचा गया।
 2. यह पाया गया कि 10,000 रुपये के विनियोग का पुस्तक में अभिलेखन नहीं था, जिसको एक लेनदार ने इसी मूल्य पर स्वीकार कर लिया तथा अन्य लेनदारों को 10% कम भुगतान किया गया। देय विपत्र को पूरा भुगतान किया गया।
 3. रोमेश ने कुछ विनियोगों को 8,100 रुपये में लिया (पुस्तक मूल्य से 10% कम), शेष विनियोगों को भवन ने पुस्तक मूल्य के 90% में 900 रुपये की छूट पर लिया।
 4. भवन ने बैंक ऋण का भुगतान 6% वार्षिक ब्याज के साथ किया।
 5. एक अभिलेखन नहीं हुए दायित्व को 5,000 रुपये का भुगतान किया।
- फर्म की पुस्तकों को बंद करते हुए आवश्यक बही खाते तैयार करें।

हल

रोमेश और भवन की पुस्तकें
वसूली खाता

नाम	जमा
विवरण	राशि (रु.)
देनदार 70,000	बैंक ऋण 60,000
स्टॉक 2,00,000	लेनदार 80,000
विनियोग 1,40,000	देय विपत्र 40,000
भवन 60,000	रोमेश की पूँजी(विनियोग) 8,100
बैंक(देय विपत्र) 40,000	भवन की पूँजी(विनियोग) 1,17,000
बैंक(लेनदार) 63,000	बैंक:
भवन की पूँजी 63,600	देनदार 66,500
(ब्याज सहित ऋण)	स्टॉक 2,00,000
बैंक(गैर अभिलेखित दायित्व) 5,000	भवन 51,000
	हानि का हस्तांतरण:
	रोमेश की पूँजी 11,400
	भवन की पूँजी 7,600
	19,000
	6,41,600

साझेदारों के पूँजी खाते

नाम					जमा				
तिथि	विवरण	रो.पृ. सं.	रोमेश (रु.)	भवन (रु.)	तिथि	विवरण	रो.पृ. सं.	रोमेश (रु.)	भवन (रु.)
2017					2017				
	वसूली(विनियोग)		8,100	1,17,000		शेष आ/ला		1,00,000	2,00,000
	वसूली(हानि)		11,400	7,600		वसूली(बैंक ऋण)		-	63,600
	बैंक		80,500	1,39,000					
			1,00,000	2,63,600				1,00,000	2,63,600

बैंक खाता

नाम				जमा			
तिथि	विवरण	रो.पृ. सं.	राशि (रु.)	तिथि	विवरण	रो.पृ. सं.	राशि (रु.)
2017				2017			
	शेष आ/ला		30,000		वसूली(लेनदार)		63,000
	वसूली		3,17,500		वसूली		5,000
	(परिसंपत्तियों से वसूली)				(गैर-अभिलेखित दायित्व)		
					भवन का ऋण		20,000
					वसूली (देय विपत्र)		40,000
					रोमेश की पूँजी		80,500
					भवन की पूँजी		1,39,000
			3,47,500				3,47,500

टिप्पणी : नियम के अनुसार लेनदार द्वारा गैर अभिलेखित विनियोग को भुगतान के रूप में स्वीकार करने के लिए कोई भी प्रविष्टि नहीं की जाएगी।

उदाहरण 7

सोनू और आशू लाभ का 3:1 में विभाजन करते हैं तथा वे फर्म के विघटन के लिए सहमत हैं। 31 मार्च, 2017 को तुलन पत्र नीचे दिया गया है:

31 मार्च, 2017 को सोनू और आशू का तुलन पत्र

नाम			जमा	
दायित्व		राशि (रु.)	परिसंपत्तियाँ	राशि (रु.)
ऋण		12,000	हस्तस्थ रोकड़	25,000
लेनदार		18,000	स्टॉक	45,000
पूँजी:			फर्नीचर	16,000
सोनू	1,10,000		देनदार	70,000
आशू	<u>68,000</u>	1,78,000	संयंत्र व यंत्र	52,000
		2,08,000		2,08,000

सोनू ने संयंत्र व यंत्र 60,000 रुपये के सहमती मूल्य पर लिया। स्टॉक और फर्नीचर के क्रमशः 42,000 रुपये व 13,900 रुपये में बेचा गया। देनदारों को आशू ने 69,000 रुपये में लिया। लेनदारों का 900 रुपये की छूट पर भुगतान किया गया। वसूली व्यय 1,600 रुपये हुए।

वसूली खाता, बैंक खाता व साझेदारों के पूँजी खाते तैयार करें।

हल

**सोनू और आशू की पुस्तकें
वसूली खाता**

नाम		जमा	
विवरण	राशि (रु.)	विवरण	राशि (रु.)
स्टॉक	45,000	ऋण	12,000
फर्नीचर	16,000	लेनदार	18,000
देनदार	70,000	सोनू की पूँजी (संयंत्र व यंत्र)	60,000
संयंत्र व यंत्र	52,000	आशू की पूँजी(देनदार)	69,000
बैंक (लेनदार)	17,100	बैंक :	
सोनू की पूँजी(ऋण)	12,000	स्टॉक	42,000
बैंक (वसूली व्यय)	1,600	फर्नीचर	13,900
लाभ का हस्तांतरण			
सोनू की पूँजी	900		
आशू की पूँजी	300		
	1,200		
	2,14,900		2,14,900

साझेदारों के पूँजी खाते

नाम					जमा				
तिथि 2017	विवरण	रो.पृ. सं.	सोनू (रु.)	आशू (रु.)	तिथि 2017	विवरण	रो.पृ. सं.	सोनू (रु.)	आशू (रु.)
	वसूली (संयंत्र व यंत्र)		60,000			शेष आ/ला		1,10,000	68,000
	वसूली (देनदार)			69,000		वसूली(ऋण)		12,000	
	बैंक		62,900			वसूली (लाभ)		900	300
						बैंक			700
			1,22,900	69,000				1,22,900	69,000

बैंक खाता

नाम				जमा			
तिथि	विवरण	रो.पृ. सं.	राशि (रु.)	तिथि	विवरण	रो.पृ. सं.	राशि (रु.)
2017				2017			
	शेष आ/ला		25,000		वसूली(लेनदार)		17,100
	वसूली		55,900		वसूली(व्यय)		1,600
	(परिसंपत्तियों से वसूली)						
	आशू की पूँजी		700		सोनू की पूँजी		62,900
			81,600				81,600

उदाहरण 8

अंजू, मंजू और संजू लाभ व हानि विभाजन 3:1:1 अनुपात में करते हैं और फर्म को विघटित करने का निर्णय लेते हैं। 31 मार्च, 2017 को उनकी स्थिति इस प्रकार है :

31 मार्च, 2017 को अंजू, मंजू और संजू का तुलन पत्र

दायित्व	राशि (रु.)	परिसंपत्तियाँ	राशि (रु.)
लेनदार	60,000	बैंकस्थ रोकड़	35,000
ऋण	15,000	स्टॉक	83,000
पूँजी :		फ़र्नीचर	12,000
अंजू	2,75,000	देनदार	2,42,000
मंजू	1,10,000	घटाया: संदिग्ध ऋणों	(12,000)
संजू	<u>1,00,000</u>	के लिए प्रावधान	
	4,85,000	भवन	2,00,000
	5,60,000		5,60,000

अतिरिक्त सूचनाएँ

1. अंजू ने फ़र्नीचर को 10,000 रुपये में और 2,00,000 रुपये के देनदार 1,85,000 में लिए। अंजू लेनदारों को भुगतान करने के लिए सहमत हुई।
2. मंजू ने स्टॉक को पुस्तक मूल्य पर और भवन को पुस्तक मूल्य से 10 प्रतिशत कम पर लिया।
3. संजू ने शेष देनदारों को पुस्तक मूल्य के 80 प्रतिशत पर लिया और ऋण का भुगतान करने का उत्तरदायित्व लिया।
4. फर्म के विघटन की व्यय राशि 2,200 रुपये है।
वसूली खाता, बैंक खाता, साझेदारों के पूँजी खाते तैयार करें।

हल

अंजू मंजू और संजू की पुस्तकें
वसूली खाता

नाम		जमा	
विवरण	राशि (रु.)	विवरण	राशि (रु.)
स्टॉक 83,000		संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	12,000
फर्नीचर 12,000		लेनदार	60,000
देनदार 2,42,000		ऋण	15,000
भवन 2,00,000	5,37,000	अंजू की पूँजी:	
अंजू की पूँजी(लेनदार)	60,000	फर्नीचर 10,000	
संजू की पूँजी(ऋण)	15,000	देनदार 185,000	1,95,000
बैंक (वसूली व्यय)	2,200	मंजू की पूँजी:	
		स्टॉक 83,000	
		भवन 1,80,000	2,63,000
		संजू की पूँजी:	33,600
		(शेष देनदार पुस्तक मूल्य से 20% कम)	
		हानि का हस्तांतरण:	
		अंजू की पूँजी 21,360	
		मंजू की पूँजी 7,120	
		संजू की पूँजी 7,120	35,600
	6,14,200		6,14,240

साझेदारों के पूँजी खाते

नाम						जमा					
तिथि	विवरण	रो.पृ. सं.	संजू (रु.)	अंजू (रु.)	मंजू (रु.)	तिथि	विवरण	रो.पृ. सं.	अंजू (रु.)	मंजू (रु.)	संजू (रु.)
2017	वसूली (परिसंपत्तियाँ)		1,95,000	2,63,000	33,600	2017	शेष आ/ला		2,75,000	1,10,000	1,00,000
	वसूली(हानि)		21,360	7,120	7,120		वसूली(लेनदार)		60,000		
	बैंक		1,18,640		74,280		वसूली(ऋण)				15,000
							बैंक			1,60,120	
			3,35,000	2,70,120	1,15,000				3,35,000	2,70,120	1,15,000

बैंक खाता

नाम				जमा			
तिथि 2017	विवरण	रो.पृ. सं.	राशि (रु.)	तिथि 2017	विवरण	रो.पृ. सं.	राशि (रु.)
	शेष आ/ला मंजू की पूँजी		35,000 1,60,120 1,95,120		वसूली (व्यय) अंजू की पूँजी संजू की पूँजी		2,200 1,18,640 74,280 1,95,120

उदाहरण 9

सुमित, अमित और विनित साझेदार हैं। लाभ का विभाजन 5:3:2 के अनुपात में करते हैं। 31 मार्च, 2017 को उनका तुलन पत्र इस प्रकार है :

31 मार्च, 2017 को सुमित, अमित और विनित का तुलन पत्र

दायित्व	राशि (रु.)	परिसंपत्तियाँ	राशि (रु.)
पूँजी :		मशीनरी	80,000
सुमित 40,000		विनियोग	1,50,000
अमित 50,000		स्टॉक	10,000
विनित 60,000	1,50,000	देनदार	35,000
लाभ व हानि	10,000	हस्तस्थ रोकड़	15,000
श्रीमती अमित से ऋण	40,000		
विविध लेनदार	90,000		
	2,90,000		2,90,000

इस तिथि को फर्म का विघटन हुआ। अमित अपनी पत्नी के ऋण के भुगतान के लिए सहमत हुआ। एक लेनदार जिसकी राशि 2,600 रुपये है उसने राशि का दावा नहीं किया। अन्य परिसंपत्तियों से निम्न वसूली की गई:

1. मशीनरी का विक्रय 70,000 रुपये में किया।
2. विनियोग जिसका पुस्तक मूल्य 1,00,000 रुपये हैं लेनदारों के खातों के पूर्ण भुगतान के लिए दी गई। शेष विनियोग को विनित ने 45,000 रुपये के मूल्य पर ले लिया।
3. स्टॉक को 11,000 रुपये में विक्रय कर दिया तथा देनदारों से 3,000 रुपये नहीं प्राप्त हुए।
4. वसूली व्यय 1,500 रुपये है।

फर्म की पुस्तकों को बंद करने के लिए बही खाते तैयार करें।

हल

**अमित, सुमित और विनित की पुस्तकें
वसूली खाता**

नाम		जमा	
विवरण	राशि (रु.)	विवरण	राशि (रु.)
मशीनरी 80,000		विविध लेनदार	90,000
विनियोग 1,50,000		श्रीमती अमित से ऋण	40,000
स्टॉक 10,000		बैंक :	
देनदार 35,000	2,75,000	मशीनरी 70,000	
अमित की पूँजी(पत्नी का ऋण)	40,000	स्टॉक 11,000	
बैंक (वसूली व्यय)	1,500	देनदार 32,000	1,13,000
		विनित की पूँजी (विनियोग)	45,000
		हानि का हस्तांतरण	
		अमित की पूँजी 14,250	
		सुमित की पूँजी 8,550	
		विनित की पूँजी 5,700	28,500
	3,16,500		3,16,500

साझेदारों के पूँजी खाते

नाम						जमा					
तिथि	विवरण	रो.पृ. सं.	अमित (रु.)	सुमित (रु.)	विनित (रु.)	तिथि	विवरण	रो.पृ. सं.	अमित (रु.)	सुमित (रु.)	विनित (रु.)
2017	वसूली (परिसंपत्तियाँ)				45,000	2017	शेष आ/ला		40,000	50,000	60,000
	वसूली(हानि)		14,250	8,550	5,700		वसूली		40,000	-	-
	बैंक		70,750	44,450	11,300		(श्रीमती अमित का ऋण)		5,000	3,000	2,000
			85,000	53,000	62,000		लाभ व हानि		85,000	53,000	62,000

बैंक खाता

नाम				जमा			
तिथि	विवरण	रो.पृ. सं.	राशि (रु.)	तिथि	विवरण	रो.पृ. सं.	राशि (रु.)
2017				2017			
	शेष आ/ला वसूली (परिसंपत्तियों से वसूली)		15,000 1,13,000		वसूली (व्यय) अमित की पूँजी सुमित की पूँजी विनित की पूँजी		1,500 70,750 44,450 11,300
			1,28,000				1,28,000

टिप्पणी : नियम के अनुसार विनियोगों को लेनदारों द्वारा लेने पर कोई भी प्रविष्टि नहीं की जाएगी।

उदाहरण 10

मीना और टीना फर्म में साझेदार हैं, उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। वे फर्म का विघटन करने का निर्णय लेते हैं। 31 मार्च, 2017 को तुलन पत्र निम्न है:

31 मार्च, 2017 को मीना और टीना का तुलन पत्र

दायित्व	राशि (रु.)	परिसंपत्तियाँ	राशि (रु.)
पूँजी :			
मीना 90,000		मशीनरी	70,000
टीना 80,000	1,70,000	विनियोग	50,000
विविध लेनदार	60,000	स्टॉक	22,000
देय विपत्र	20,000	विविध देनदार	1,03,000
	2,50,000	हस्तस्थ रोकड़	5,000
			2,50,000

परिसंपत्तियों और दायित्वों का निपटारा इस प्रकार हुआ :

- मशीनरी को लेनदारों के खातों के पूर्ण भुगतान के लिए दिया गया और स्टॉक को देय विपत्र के पूर्ण भुगतान के लिए दिया गया।
 - विनियोग को टीना ने पुस्तक मूल्य पर ले लिया। विविध देनदारों को मीना ने पुस्तक मूल्य 50,000 रुपये से 10% कम पर ले लिया और शेष देनदारों से 51,000 रुपये वसूली हुई।
 - वसूली व्यय की राशि 2,000 रुपये है।
- फर्म की पुस्तकों को बंद करने के लिए आवश्यक बही खाते तैयार करें।

हल

मीना और टीना की पुस्तकें
वसूली खाता

नाम		जमा	
विवरण	राशि (रु.)	विवरण	राशि (रु.)
परिसंपत्तियों का हस्तांतरण:		विविध लेनदार	60,000
मशीनरी 70,000		देय विपत्र	20,000
विनियोग 50,000		टीना की पूँजी(विनियोग)	50,000
स्टॉक 22,000		मीना की पूँजी	45,000
विविध देनदार 1,03,000	2,45,000	(पुस्तक मूल्य 50,000 रुपये से 10% कम)	
बैंक (वसूली व्यय)	2,000	बैंक :	
		देनदार	51,000
		हानि का हस्तांतरण:	
		मीना की पूँजी 12,600	
		टीना की पूँजी 8,400	21,000
	2,47,000		2,47,000

साझेदारों के पूँजी खाते

नाम			जमा		
विवरण	मीना (रु.)	टीना (रु.)	विवरण	मीना (रु.)	टीना (रु.)
वसूली (विनियोग)		50,000	शेष आ/ला	90,000	80,000
वसूली (देनदार)	45,000				
वसूली (हानि)	12,600	8,400			
बैंक	32,400	21,600			
	90,000	80,000		90,000	80,000

बैंक खाता

नाम		जमा	
विवरण	राशि (रु.)	विवरण	राशि (रु.)
शेष आ/ला	5,000	वसूली (व्यय)	2,000
वसूली (परिसंपत्तियाँ)	51,000	मीना की पूँजी	32,400
		टीना की पूँजी	21,600
	56,000		56,000

इस अध्याय में प्रयुक्त शब्द

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. साझेदारी का विघटन | 2. साझेदारी फर्म का विघटन |
| 3. इच्छा से साझेदारी | 4. अनिवार्य विघटन |
| 5. सूचना द्वारा विघटन | 6. वसूली व्यय |
| 7. वसूली खाता | |

सारांश

1. साझेदारी फर्म का विघटन : फर्म के विघटन से आशय साझेदारों के मध्य व्यापार समापन और आर्थिक संबंधों का विच्छेद है। फर्म के विघटन की दशा में फर्म अपना व्यवसाय बंद कर देती है तथा समस्त परिसंपत्तियों की वसूली की जाती है और देयताओं का पूर्णतः भुगतान कर दिया जाता है। लेनदारों को सर्वप्रथम भुगतान परिसंपत्तियों की वसूली राशि से किया जाता है; तत्पश्चात यदि किसी प्रकार का भुगतान बाकी रहता है तो वह साझेदारों की निवेशित पूँजी, जो लाभ विभाजन अनुपात में निवेश की गई है, में से किया जाता है। साझेदारों के अंतिम भुगतान के बाद, फर्म की पुस्तकें बंद कर दी जाती हैं।
2. साझेदारी का विघटन : साझेदारी, साझेदार के प्रवेश, सेवानिवृत्ति तथा मृत्यु आदि के समय समाप्त हो जाती है। इससे फर्म का विघटन अनिवार्य नहीं है।
3. वसूली खाता : विक्रय, परिसंपत्तियों की वसूली और लेनदारों को भुगतान से संबंधित लेनदेनों के लिए वसूली खाता तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न लाभ अथवा हानि को साझेदारों के बीच लाभ-हानि विभाजन, अनुपात में बाँट दिया जाता है। साझेदारों के खातों का समायोजन कर दिया जाता है और रोकड़/बैंक खाता बंद कर दिया जाता है।

अभ्यास के लिए प्रश्न**लघु उत्तर प्रश्न**

1. साझेदारी का विघटन और साझेदारी फर्म के विघटन के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए।
2. लेखा व्यवहार कीजिए :
 - (i) गैर-अभिलेखित परिसंपत्तियाँ
 - (ii) गैर-अभिलेखित दायित्व
3. विघटन के समय आप साझेदार के ऋण का किस प्रकार व्यवहार करेंगे यदि यह;
 - (i) तुलन पत्र के परिसंपत्ति पक्ष की ओर दर्शायी गई है
 - (ii) तुलन पत्र के दायित्व पक्ष की ओर दर्शायी गई है।
4. फर्म के ऋण और साझेदारों के व्यक्तिगत ऋणों के मध्य अंतर समझाएँ
5. विघटन पर खातों के भुगतान का क्रम लिखें।
6. वसूली खाता पुनर्मूल्यांकन खाते से किस प्रकार भिन्न है।

निबंधात्मक प्रश्न

1. साझेदारी फर्म के विघटन की प्रक्रिया समझाएँ?
2. वसूली खाता किसे कहते हैं?
3. वसूली खाते का प्रारूप बनाइए।
4. लेनदारों को कमी का भुगतान किस प्रकार से करेंगे?

आंकिक प्रश्न

1. वसूली व्यय से संबंधित निम्न व्यवहारों का रोज़नामचा बनाइए:
 - (अ) वसूली व्यय की राशि 2,500 रुपये।
 - (ब) वसूली व्यय की राशि 3,000 रुपये का भुगतान अशोक द्वारा जो कि एक साझेदार है।
 - (स) वसूली व्यय 2,300 रुपये तरुण द्वारा व्यक्तिगत तौर पर किए गए।
 - (द) साझेदार अमित को परिसंपत्तियों की वसूली के लिए 4,000 रुपये में नियुक्त किया गया। वास्तविक वसूली व्यय की राशि 3,000 रुपये है।
2. निम्न स्थिति में आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टि दें:
 - (अ) 85,000 रुपये के लेनदारों ने 40,000 रुपये रोकड़ और 43,000 रुपये के विनियोग का अपने दावे का पूर्ण भुगतान स्वीकार किया।
 - (ब) लेनदार 16,000 रुपये के हैं। वे 18,000 रुपये मूल्य की मशीनरी को अपने दावे का भुगतान स्वीकार करते हैं।
 - (स) लेनदार 90,000 रुपये के हैं। वे 1,20,000 रुपये के भवन तथा 30,000 रुपये के रोकड़ को फर्म का भुगतान स्वीकार करते हैं।
3. एक पुराने कंप्यूटर को पिछले वर्ष के लेखा पुस्तकों में अपलिखित किया गया। एक साझेदार नितिन द्वारा उसी को 3,000 रुपये में लिया गया। यह मानते हुए कि फर्म का विघटन हो चुका है, उपरोक्त के संबंध में रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।
4. फर्म के विघटन पर निम्न व्यवहारों की क्या रोज़नामचा प्रविष्टियाँ अभिलेखित की जाएँगी:
 - (अ) गैर-अभिलेखित दायित्व का भुगतान 3,200 रुपये।
 - (ब) साझेदार रोहित द्वारा 7,500 रुपये के स्टॉक को लेना।
 - (स) वसूली पर लाभ की राशि 18,000 को साझेदार आशीष और तरुण को 5:7 के अनुपात में विभाजित किया गया।
 - (द) गैर-अभिलेखित परिसंपत्ति से 5,500 रुपये की वसूली।
5. निम्न व्यवहारों की रोज़नामचा प्रविष्टियाँ दीजिए:
 1. विभिन्न परिसंपत्तियों और दायित्वों की वसूली का अभिलेखन।
 2. फर्म के पास 1,60,000 रुपये का स्टॉक है। साझेदार अजीज़ द्वारा 50% स्टॉक को 20% छूट पर ले लिया गया।
 3. शेष स्टॉक का विक्रय लागत मूल्य पर 30% लाभ पर हुआ।
 4. भूमि और भवन (पुस्तक मूल्य 1,60,000 रुपये) का विक्रय 3,00,000 रुपये में एक दलाल के द्वारा किया गया जिसने सौदे पर 2% कमीशन लिया।

5. संयंत्र और मशीनरी (पुस्तक मूल्य 60,000 रुपये) एक लेनदार को पुस्तक मूल्य से 10% कम के स्वीकृत मूल्यांकन पर दिया गया।
6. विनियोग जिसका मूल्य 4,000 रुपये था से 50% वसूली हुई।
6. निम्न परिस्थितियों में आप रश्मि और बिंदु के वसूली व्ययों का किस प्रकार लेखा व्यवहार करेंगे:
 1. वसूली व्यय की राशि 1,00,000 रुपये।
 2. वसूली व्यय की राशि 30,000 रुपये का भुगतान साझेदार रश्मि ने किया।
 3. विघटन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए रश्मि ने वसूली व्यय का वहन किया जिसके लिए पारितोषिक 70,000 रुपये दिया गया। रश्मि द्वारा वास्तविक व्यय 1,20,000 रुपये किया गया।
7. 1,00,000 रुपये की परिसंपत्तियों का हस्तांतरण (रोकड़ और बैंक के अतिरिक्त) वसूली खाते में किया गया। परिसंपत्तियों को 50% साझेदार अतुल द्वारा 20% छूट पर ले लिया। शेष परिसंपत्तियों में से 40% को, लागत पर 30% लाभ पर विक्रय किया गया। शेष का 5% बेकार हो गया, कुछ वसूली नहीं हुई और बाकी परिसंपत्तियाँ एक लेनदार को उसके दावे का पूर्ण भुगतान के लिए दी गईं। परिसंपत्तियों से वसूली की रोजनामचा प्रविष्टि का अभिलेखन करें।
8. पारस और प्रिया की पुस्तकों में निम्न गैर-अभिलेखित परिसंपत्तियों और दायित्वों की आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि का अभिलेखन करें:
 1. एक पुराने फर्नीचर को फर्म में पूर्ण रूप से अपलिखित किया गया। यह फर्नीचर 3,000 रुपये में बेचा गया।
 2. आशीष जो कि एक पुराना ग्राहक है जिसका खाता 1,000 रुपये से पिछले वर्ष के डूबत ऋण के तौर पर अपलिखित किया गया, ने 6% का भुगतान किया।
 3. पारस फर्म की ख्याति को लेता है (जिसका लेखा पुस्तकों में नहीं है) जिसे 3,000 रुपये पर मूल्यांकित किया गया।
 4. एक पुरानी टंकण मशीन (टाइपराइटर) जो कि पूर्ण रूप से लेखा पुस्तकों में अपलिखित किया गया। इसका अनुमानित वसूली मूल्य 400 रुपये था। इसको प्रिया के द्वारा अनुमानित मूल्य से 25% छूट पर लिया गया।
 5. 100 शेयर, 10 रुपये प्रत्येक को स्टार लिमिटेड ने 2,000 रुपये की कीमत पर अधिगृहित किया था, जिसको लेखा पुस्तकों में पूर्ण रूप से अपलिखित किया गया। इन अंशों का मूल्यांकन 6 रुपये प्रत्येक किया तथा साझेदारों के मध्य उनके लाभ विभाजन अनुपात में बाँटा गया।
9. सभी साझेदारों ने फर्म के विघटन की इच्छा व्यक्त की। यासिन एक साझेदार 2,00,000 रुपये के ऋण को साझेदारों के पूँजी भुगतान से पहले भुगतान चाहता है। लेकिन अमर, एक अन्य साझेदार पूँजी का भुगतान, यासिन के ऋण के भुगतान से पहले चाहता है। कारण बताते हुए उनके बीच उपाय का सुझाव दें।
10. समस्त दायित्वों को वसूली खाते में हस्तांतरित करने तथा विभिन्न परिसंपत्तियों (रोकड़ के अतिरिक्त) तीसरे पक्ष को किसी फर्म के विघटन पर निम्न लेनदेनों के संबंध में क्या रोजनामचा प्रविष्टियाँ की जाएँगी।
 1. आरती ने 80,000 रुपये के मूल्य का स्टॉक 68,000 रुपये में लिया।

साझेदारी फर्म का विघटन

2. 40,000 रुपये की गैर-अभिलेखित मोटर साइकिल जो कि करीम द्वारा ली गई।
 3. फर्म ने कर्मचारियों को 40,000 रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया।
 4. विभिन्न दायित्व को जो कि 36,000 रुपये के थे, को 15% छूट पर भुगतान किया गया।
 5. वसूली पर हानि 42,000 रुपये को आरती और करीम के मध्य 3:4 के अनुपात में विभाजन किया जाएगा।
11. रोज और लिली का लाभ विभाजन अनुपात 2:3 है। 31 मार्च, 2017 को उनका तुलन पत्र निम्न है:

दायित्व	राशि (रु.)	परिसंपत्तियाँ	राशि (रु.)
लेनदार	40,000	रोकड़	16,000
लिली से ऋण	32,000	देनदार	80,000
लाभ व हानि	50,000	घटाया: संदिग्ध ऋण	<u>3,600</u>
पूँजी:		के लिए प्रावधान	
लिली	1,60,000	स्टॉक	1,09,600
रोज़	2,40,000	प्राप्य विपत्र	40,000
		भवन	2,80,000
	5,22,000		5,22,000

रोज़ और लिली इस तिथि को फर्म के विघटन का निर्णय करते हैं। परिसंपत्तियों (प्राप्य विपत्र को छोड़कर) से वसूली 4,84,000 रुपये लेने के लिए सहमत हैं। लेनदार 38,000 रु. पर सहमत हैं। वसूली की लागत 2,400 रुपये। फर्म में मोटर साइकिल है जिसको फर्म के रुपयों से लिया गया लेकिन फर्म की पुस्तकों में नहीं दर्शाया गया। इसका विक्रय 10,000 रुपये में किया गया। बकाया बिजली बिल के संबंध में संभावित दायित्व 5,000 रुपये हैं। प्राप्य विपत्र रोज़ ने 33,000 रुपये में ले लिया।

वसूली खाता, साझेदारों के पूँजी खाते, ऋण खाता और रोकड़ खाता तैयार करें।

(उत्तर : वसूली से लाभ 15,000 रुपये, रोकड़ खाते का योग 5,10,000 रुपये)

12. शिल्पा, मीना और नंदा ने 31 मार्च, 2017 को फर्म के विघटन का निर्णय लिया। इनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2:1 है और उनका तुलन पत्र इस प्रकार है:

31 मार्च, 2017 को शिल्पा, मीना और नंदा का तुलन पत्र

दायित्व (रु.)	राशि	परिसंपत्तियाँ (रु.)	राशि
पूँजी:		भूमि	81,000
शिल्पा	80,000	स्टॉक	56,760
मीना	40,000	देनदार	18,600
बैंक ऋण	20,000	नंदा की पूँजी	23,000
लेनदार	37,000	रोकड़	10,840
संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	1,200		
सामान्य संचय	12,000		
	1,90,200		1,90,200

शिल्पा ने 41,660 रुपये मूल्य का स्टॉक 35,000 रुपये में ले लिया और बैंक ऋण का भुगतान करने को सहमत हुई। शेष स्टॉक का विक्रय 14,000 रुपये में किया गया और 10,000 रुपये के देनदारों से 8,000 रुपये वसूली हुई। भूमि का विक्रय 1,10,000 रुपये में किया। शेष देनदारों से पुस्तक मूल्य की 50% वसूली हुई। वसूली की लागत राशि 1,200 रुपये है। 6,000 रुपये मूल्य की एक टंकण मशीन पुस्तकों में गैर-अभिलेखित है, को एक लेनदार ने इसी मूल्य पर ले लिया। वसूली खाता तैयार करें।
(उत्तर: वसूली से लाभ 20,940 रुपये, रोकड़ खाते का योग 1,64,650 रुपये)

13. सुरजीत और राही का लाभ व हानि विभाजन अनुपात 3:2 है। 31 मार्च, 2017 को उनका तुलन पत्र इस प्रकार है:

31 मार्च, 2017 को सुरजीत और राही का तुलन पत्र

दायित्व (रु.)	राशि	परिसंपत्तियाँ (रु.)	राशि
लेनदार	38,000	बैंक	11,500
श्रीमती सुरजीत से ऋण	10,000	स्टॉक	6,000
संचय	15,000	देनदार	19,000
राही का ऋण	5,000	फर्नीचर	4,000
पूँजी:		संयंत्र	28,000
सुरजीत	10,000	विनियोग	10,000
राही	8,000	लाभ व हानि	7,500
	86,000		86,000

- 31 मार्च, 2017 को फर्म का विघटन निम्न शर्तों पर हुआ :
- सुरजीत ने विनियोगों को 8,000 रुपये में लिया और वह श्रीमती सुरजीत के ऋण का भुगतान करेगा।
 - अन्य परिसंपत्तियों से वसूली निम्न हैं :

स्टॉक	5,000 रु.
देनदार	18,500 रु.
फर्नीचर	4,500 रु.
संयंत्र	25,000 रु.
 - वसूली व्यय की राशि 1,600 रुपये है।
 - लेनदारों ने पूर्ण भुगतान के 37,000 रुपये स्वीकार किए।
 - आप वसूली खाता, साझेदारों के पूँजी खाते और बैंक खाता तैयार करें।
(उत्तर: वसूली पर हानि 6,600 रुपये, रोकड़ खाते का योग 64,500 रुपये)
14. रीटा, गीता और आशीष फर्म में साझेदार हैं, उनका लाभ / हानि विभाजन अनुपात 3:2:1 है। 31 मार्च, 2017 को उनका तुलन पत्र इस प्रकार है:

31 मार्च, 2017 को रीता, गीता और आशीष का तुलन पत्र

दायित्व	राशि (रु.)	परिसंपत्तियाँ	राशि (रु.)
पूँजी:		रोकड़	22,500
रीता 80,000		देनदार	52,300
गीता 50,000		स्टॉक	36,000
आशीष 30,000	1,60,000	विनियोग	69,000
लेनदार	65,000	संयंत्र	91,200
देय विपत्र	26,000		
सामान्य संचय	20,000		
	2,71,000		2,71,000

ऊपर दी गई तिथि को फर्म का विघटन हो गया।

- रीता को परिसंपत्तियों की वसूली के लिए नियुक्त किया गया। रीता को परिसंपत्तियों की वसूली के लिए 5% कमीशन (रोकड़ के अतिरिक्त) मिलेगा और वह सारे वसूली व्यय करेगी।
- परिसंपत्तियों से वसूली निम्न है :

देनदार	30,000 रु.
स्टॉक	26,000 रु.
संयंत्र	42,750 रु.
- विनियोग से पुस्तक मूल्य के 85% की वसूली हुई।
- वसूली व्यय की राशि 4,100 रुपये है।
- फर्म ने बकाया वेतन 7,200 रुपये का भुगतान किया जिसका प्रावधान पहले नहीं किया गया था।
- एक विपत्र बैंक से छूट के संबंध में आकस्मिक दायित्व है जिसका भुगतान 9,800 रुपये किया गया। वसूली खाता, साझेदारों के पूँजी खाते, रोकड़ खाता तैयार करें।
(उत्तर : वसूली पर हानि 1,15,970 रुपये)
- अनूप और सुमित फर्म में बराबर के साझेदार हैं। वे 31 मार्च, 2017 को फर्म के समापन का निर्णय लेते हैं, जब तुलन पत्र निम्न है:

31 मार्च, 2017 को अनूप और सुमित का तुलन पत्र

दायित्व (रु.)	राशि	परिसंपत्तियाँ (रु.)	राशि
विविध लेनदार	27,000	हस्तस्थ रोकड़	11,000
संचय कोष	10,000	विविध देनदार	12,000
ऋण	40,000	संयंत्र	47,000

पूँजी:			स्टॉक	42,000
अनुप	60,000		पट्टाकृत भूमि	60,000
सुमित	<u>60,000</u>	1,20,000	फर्नीचर	25,000
		1,97,000		1,97,000

परिसंपत्तियों से वसूली निम्न है:

पट्टाकृत भूमि	72,000 रु.
फर्नीचर	22,500 रु.
स्टॉक	40,500 रु.
संयंत्र	48,000 रु.
विविध देनदार	10,500 रु.

लेनदारों को 25,500 रुपये का भुगतान पूर्ण निपटारे के लिए किया गया। वसूली व्ययों की राशि 2,500 रुपये है। फर्म की पुस्तकों को बंद करने के लिए वसूली खाता, बैंक खाता तथा साझेदारों के पूँजी खाते तैयार करें।

(उत्तर : वसूली पर लाभ 6,500 रुपये)

16. आशू और हरीश साझेदार हैं। वे अपना लाभ और हानि 3:2 में विभाजित करते हैं। 31 मार्च, 2017 को फर्म के विघटन का निर्णय लिया गया। इस तिथि को फर्म का तुलन पत्र इस प्रकार है :

31 मार्च, 2017 को आशू और हरीश का तुलन पत्र

दायित्व (रु.)	राशि	परिसंपत्तियाँ (रु.)	राशि
पूँजी:		भवन	80,000
आशू	108,000	मशीनरी	70,000
हरीश	<u>54,000</u>	फर्नीचर	14,000
लेनदार	88,000	स्टॉक	20,000
बैंक अधिविकर्ष	50,000	विनियोग	60,000
		देनदार	48,000
	हस्तस्थ रोकड़		8,000
	3,00,000		3,00,000

आशू ने भवन को 95,000 रुपये में और हरीश ने मशीनरी और फर्नीचर को 80,000 रुपये के मूल्य पर लिया। आशू लेनदारों का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ और हरीश ने बैंक अधिविकर्ष का भुगतान किया। स्टॉक और विनियोग को दोनों साझेदारों ने लाभ विभाजन अनुपात में ले लिया। देनदारों से 46,000 रुपये वसूली हुई। वसूली व्ययों की राशि 3,000 रुपये हैं। आवश्यक बही खाता तैयार करें।

(उत्तर: वसूली पर हानि 6,000 रुपये, रोकड़/बैंक 59,600 रुपये)

17. संजय, तरुण और विनित लाभ 3:2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। 31 मार्च, 2017 को उनका तुलन पत्र निम्न है:

31 मार्च, 2016 को तुलन पत्र

दायित्व	राशि (रु.)	परिसंपत्तियाँ	राशि (रु.)
पूँजी:		संयंत्र	90,000
संजय 1,00,000		देनदार	60,000
तरुण 1,00,000		फ़र्नीचर	32,000
विनित 70,000	2,70,000	स्टॉक	60,000
लेनदार	80,000	विनियोग	70,000
देय विपत्र	30,000	प्राप्य विपत्र	36,000
		हस्तस्थ रोकड़	32,000
	3,80,000		3,80,000

इस तिथि को फर्म का विघटन हो गया। संजय को परिसंपत्तियों से वसूली के लिए नियुक्त किया गया। संजय को परिसंपत्तियों से वसूली पर (रोकड़ के अतिरिक्त) 6% कमीशन दिया जाएगा और वह वसूली पर व्यय का भुगतान करेगा। संजय द्वारा परिसंपत्तियों से निम्न वसूली की गई: संयंत्र 72,000 रुपये, देनदार 54,000 रुपये फ़र्नीचर 18,000 रुपये, स्टॉक पुस्तक मूल्य का 90%, विनियोग 76,000 रुपये और प्राप्य विपत्र 31,000 रुपये वसूली व्यय की राशि 4,500 रुपये है। वसूली खाता, पूँजी खाते, रोकड़ खाता तैयार करें।

(उत्तर : वसूली पर हानि 61,300 रुपये, रोकड़ खाते का योग 3,37,000 रुपये)

18. 31 मार्च, 2017 को गुप्ता और शर्मा का तुलन पत्र निम्न है :

31 मार्च, 2017 को गुप्ता और शर्मा का तुलन पत्र

दायित्व	राशि (रु.)	परिसंपत्तियाँ	राशि (रु.)
विविध लेनदार	38,000	बैंक में रोकड़	12,500
श्रीमती गुप्ता से ऋण	20,000	विविध देनदार	55,000
श्रीमती शर्मा से ऋण	30,000	स्टॉक	44,000
संचय कोष	6,000	प्राप्य विपत्र	19,000
डुबत ऋण के लिए प्रावधान	4,000	मशीनरी	52,000
पूँजी:		विनियोग	38,500
गुप्ता 90,000		फ़िक्सचर्स	27,000
शर्मा 60,000	1,50,000		
	2,48,000		2,48,000

31 मार्च, 2017 को फर्म का विघटन हो गया और परिसंपत्तियों से वसूली व दायित्वों का भुगतान निम्न है:

(अ) परिसंपत्तियों से वसूली:

विविध देनदार	52,000
स्टॉक	42,000
प्राप्य विपत्र	16,000
मशीनरी	49,000

(ब) गुप्ता द्वारा विनियोग 36,000 रुपये के स्वीकृत मूल्य पर लिए गए और वह श्रीमती गुप्ता के ऋण का भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

(स) विविध लेनदारों को 3% छूट पर भुगतान किया गया।

(द) वसूली व्यय 120 रुपये किए गए।

विघटन पर रोजनामचा प्रविष्टि करें और वसूली खाता, बैंक खाता और साझेदारों के पूँजी खाते तैयार करें।

(उत्तर : वसूली पर हानि 36,560 रुपये, रोकड़ खाते का योग 1,88,500 रुपये)

19. अशोक, बाबू और चेतन साझेदार हैं। लाभ/हानि का विभाजन अनुपात क्रमशः 1/2, 1/3, 1/6 है। 31 मार्च, 2017 को फर्म का विघटन हो गया जबकि तुलन पत्र निम्न है:

31 मार्च, 2017 को अशोक, बाबू और चेतन का तुलन पत्र

दायित्व (रु.)	राशि	परिसंपत्तियाँ (रु.)	राशि
विविध लेनदार	20,000	बैंक	7,500
देय विपत्र	25,500	विविध देनदार	58,000
बाबू से ऋण	30,000	स्टॉक	39,500
पूँजी:		मशीनरी	48,000
अशोक 70,000		विनियोग	42,000
बाबू 55,000		स्वतंत्र परिसंपत्ति	50,500
चेतन 27,000	152,000		
चालू खाते:			
अशोक 10,000			
बाबू 5,000			
चेतन 3,000	18,000		
	2,45,500		2,45,500

बाबू ने मशीनरी को 45,000 रुपये में ले लिया। अशोक ने विनियोग 40,000 में लिया तथा पूर्णस्वामित्व परिसंपत्ति को चेतन ने 55,000 रुपये में लिया। शेष परिसंपत्तियों से वसूली इस प्रकार है : विविध देनदार 56,500 रुपये और स्टॉक 36,500 रुपये। विविध लेनदारों का भुगतान 7% छूट पर किया। गैर-अभिलेखित कंप्यूटर से 9,000 रुपये वसूल हुए। वसूली व्यय की राशि 3,000 रुपये है। वसूली खाता, साझेदारों के पूँजी खाते व बैंक खाता तैयार करें।

(उत्तर : वसूली पर लाभ 2,400 रुपये, रोकड़ खाते का योग 1,34,100 रुपये)

20. तनु और मनु का तुलन पत्र निम्न है जो कि अपना लाभ व हानि 5:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं:

31 मार्च, 2017 को तनु और मनु का तुलन पत्र

दायित्व (रु.)	राशि	परिसंपत्तियाँ (रु.)	राशि
विविध लेनदार	62,000	बैंक में रोकड़	16,000
देय विपत्र	32,000	विविध लेनदार	55,000
बैंक ऋण	50,000	स्टॉक	75,000
संचय कोष	16,000	मोटर कार	90,000
पूँजी:		मशीनरी	45,000
तनु 1,10,000		विनियोग	70,000
मनु 90,000	2,00,000	फिक्सचर्स	9,000
	3,60,000		3,60,000

इस तिथि को फर्म का विघटन हो गया और निम्न समझौता हुआ :

तनु ने विविध देनदार लिए और बैंक ऋण का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। विविध लेनदारों ने स्टॉक स्वीकार किया और फर्म को 10,000 रुपये का भुगतान किया। मनु ने मशीनरी को 40,000 रुपये में लिया और देय विपत्र का 5% छूट पर भुगतान के लिए सहमत हुआ। मोटर कार को तनु ने 60,000 रुपये में लिया। विनियोग से 76,000 रुपये व फिक्सचर्स से 4,000 रुपये वसूल हुए। वसूली व्यय की राशि 2,200 रुपये हैं।

वसूली खाता, बैंक खाता व साझेदारों के पूँजी खाते तैयार करें।

(उत्तर : वसूली से हानि 37,600 रुपये, रोकड़ खाते का योग 1,06,000 रुपये)

स्वयं जाँचिए की जाँच सूची

स्वयं जाँचिए 1

1. सत्य 2. सत्य 3. सत्य 4. असत्य 5. सत्य 6. सत्य 7. सत्य 8. असत्य

स्वयं जाँचिए 2

1. (स) 2. (द) 3. (ब) 4. (द) 5. (स) 6. (अ) 7. (ब) 8. (स)

स्वयं जाँचिए 3

1. नाम, वसूली 2. बाह्य, जमा, वसूली 3. पूँजी खाते, लाभ विभाजन अनुपात 4. जमा 5. नाम 6. लेनदार 7. भुगतान, वसूली 8. वसूली, पूँजी 9. गैर-अभिलेखित 10. पूँजी

टिप्पणी

टिप्पणी

टिप्पणी
